



July 17, 2024

BSE Limited
Floor 25, P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051
Trading Symbol: **JUBLINGREA**

Scrip Code: **543271**

Dear Sirs,

Sub: Submission of Copies of published Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results

We enclose copies of un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2024 published on July 17, 2024 in MINT (English) and Hindustan (Hindi).

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jubilant Ingrevia Limited

Deepanjali Gulati
Company Secretary

A Jubilant Bhartia Company

OUR VALUES



Jubilant Ingrevia Limited


1-A, Sector 16-A,
Noida-201 301, UP, India
Tel: +91 120 4361000
Fax: +91 120 4234895-96
www.jubilantingrevia.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha - 244 223
Uttar Pradesh, India
CIN : L24299UP2019PLC122657



Bharti Airtel Foundation launches scholarship fund

Guilveen Aulakh
gulveen.aulakh@livemint.com
NEW DELHI



Rakesh Bharti Mittal, vice chairman of Bharti Enterprises, and co-chairman of Bharti Airtel Foundation.

Bharti Airtel Foundation, the philanthropic arm of Bharti Enterprises, on Tuesday launched a merit-cum-means scholarship programme that will fully fund students in technology-based engineering undergraduate and integrated courses in top 50 National Institutional Ranking Framework (NIRF) colleges, including the Indian Institutes of Technology (IITs).

The programme, launched to mark 25 years of the Bharti Airtel Foundation, will begin with 250 students a year, and reach up to 4,000 students in a phased manner.

The scholarship programme is expected to have an annual outlay of ₹100 crore to support students on a rolling basis. Rakesh Bharti Mittal, vice chairman of Bharti Enterprises that operates telecom firm Airtel, and co-chairman of Bharti Airtel Foundation, told *Mint* that the programme has a special focus on the girl child even as the key goal of the scholarship is to remove hurdles for underprivileged students in need of financial aid.

The programme aims to support deserving students from diverse socio-economic backgrounds and will be applicable to students eligible for admissions in August 2024.

The scholarship will be provided to students whose family income doesn't exceed ₹850,000 a year.

"For the 2024 cohort, we will be picking up 250 students

coming from the tech sector. The applications will be reviewed for meeting the criteria by Buddy4Study," Mittal said.

The corpus for the new programme will come from the corporate social responsibility spends that the group has committed as per compliance norms.

"From my perspective, if I see how many lives we can shape or change. It isn't just directly the number of students who are getting support, when they become employable, the whole family benefits," he added.

The scholarships will focus on undergraduate and integrated courses in the field of electronics and communication, telecom, information technology, computer sciences, data sciences, and emerging technologies such as AI,

IoT, AR/VR, machine learning and robotics.

Recipients of this scholarship will be known as 'Bharti Scholars'.

They will receive 100% of their college fees throughout the duration of their course and will also be given a laptop.

Additionally, hostel and mess fees shall be given to all eligible students who apply for it.

Recipients will be encouraged to voluntarily support at least one student continuously once they graduate and are gainfully employed.

The scholarship programme is the latest for the Bharti Airtel Foundation which started with Satya Bharti Schools for the underprivileged in 2006 that now has 164 schools in four states with 36,000 children. Girls account for half of the students enrolled in these schools.

The scholarship programme is expected to have an annual outlay of ₹100 crore to support students on a rolling basis

FMCG firms step up efforts to mitigate climate risks

Dabur's annual report mentions climate risks to business; Bisleri may bring in water credits

Suneera Tandon
suneera.t@htlive.com
MUMBAI

Several large makers of fast-moving consumer goods (FMCG) have intensified efforts to mitigate threats posed by erratic and extreme weather events, according to the latest annual reports filed by these companies. The move comes as more businesses find themselves facing risks linked to weather changes—including unseasonal rains, delayed winters, and periods of water stress that can potentially derail business continuity plans.

In its annual report released last week, packaged consumer goods maker Dabur India said that climate change, marked by uneven weather patterns such as unseasonal rainfall, delayed and contracted winter, impacted its seasonal portfolio in FY24. The company sells hair oils and health and wellness products. The Ghaziabad-based company has sharpened focus on climate-related uncertainties such as drought, and flooding as potential risks to business since 2021-22. Last fiscal year, it hired Rahul Awasthi as the company's first-ever chief sustainability officer.

Climate-related challenges such as heatwaves, droughts, and water stress can significantly impact the availability and quality of essential raw materials by causing lower yields and greater yield variability, the company said. The company deploys research and development to identify



Weather-related risks such as drought or floods push up essential raw material costs by causing lower yields and greater yield variability.

alternative raw materials whenever specific ones are unavailable.

Additionally, Dabur's procurement team works towards reducing reliance

biodiversity team collaborates closely with farmers and local communities to cultivate critically endangered herbs, guaranteeing their availability, both

now stepped up the efforts, as extreme weather events grow in frequency and intensity. This is because such extreme events can lead to water shortages or floods in areas where companies operate. Additionally, climate change poses a significant threat to agricultural yields in a country like India; climate-related risks can also drive up raw materials costs.

Last month, packaged water maker Bisleri said it was looking to introduce water credits akin to carbon credits, aimed at making beverage makers more accountable for water usage. The company has partnered with Teri School of Advanced Studies to conduct a study that would set a benchmark for the beverage industry's commitment to water conservation. Bisleri said it will share its findings with the central government to facilitate discussions and develop a framework, advancing the concept of water credits for the beverages industry.

The move comes as large cities increasingly face water shortages. This summer, Bengaluru faced acute water shortages, driving up demand for packaged water.

Meanwhile, companies such as Nestlé, Hindustan Unilever Ltd and ITC have for long driven their commitment to reducing their impact on the planet while also securing their supply chains that involve agricultural produce such as wheat, tea and coffee.

In its annual report released last month, Nestlé India said the FMCG industry faces multiple climate risks, including erratic monsoon patterns.

UNDER THE WEATHER

LAST fiscal, Dabur India hired Rahul Awasthi as the co's first-ever chief sustainability officer

DABUR'S biodiversity team collaborates closely with farmers and local communities

BISLERI has partnered with Teri School of Advanced Studies to conduct a conservation study

IN its annual report Nestlé India said the FMCG industry faces multiple climate risks

on single suppliers by developing a network of multiple vendors across diverse geographies, ensuring a consistent supply of raw materials at all times. "Our

now and in the future," the company said. To be sure, while companies have been safeguarding businesses against the impact of climate change, they have

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ओमेगा-1 (पी-2), गेट नोएडा,
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक - वाई.ई.ए./नियोजन/1208/2024 दिनांक: 15.07.2024

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है:-

- (क) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सैक्टर-18 के तलपट मानचित्र को पुनरीक्षित किया गया है।
- (ख) निरीक्षण के लिए तलपट मानचित्र की एक प्रति यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यालय, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-पी 2, ओमेगा, गेट नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर में सभी कार्यालय दिवसों में एतद्वारा पैरा 3 में से उल्लिखित अवधि में उपलब्ध रहेगी।
- एतद्वारा इस योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।
- आपत्तियाँ और सुझाव मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लिखित रूप में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवसों तक भेजे जा सकते हैं।
- आपत्तियाँ और सुझाव देने वाले व्यक्ति को नाम, पता एवं दूरभाष संख्या देना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अविधेय है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के ब्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1 (पी-2), गेट नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर-201308 (उ०प०)
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक : वाई०ई०ए०/GM(P)/2024/924 दिनांक : 12.07.2024

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित/अर्द्धशासित/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों का काम से कम चार वर्ष का अनुभव रखने वाले उकेदारों/फर्मों से ई-निविदाये आमन्त्रित की जाती है। ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाये द्विस्तरीय पद्धति से खोली जायेगी।

कार्यालय आदेश संख्या : वाई.ई.ए./GM(P)/2024/923 दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यों में संविदाकार द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी (बीओक्यू) पर डाले गये 10 प्रतिशत कम दरों तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा उसके पश्चात 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर सिक्वोरिटी/परफॉर्मैन्स गारन्टी प्राप्त की जायेगी तथा परफॉर्मैन्स गारन्टी एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/बैंक गारन्टी/एन०एस०सी० के रूप में न्यूनतम संविदाकार द्वारा अनुबन्ध गठन से पूर्व देनी होगी, जो कार्य के अन्तिम बीजक होने के बाद वापिस होगी।

क्रम सं०	कार्य का नाम/वर्क सर्किल	अनुमानित लागत
1	Construction of 3000kL U.G.R. in Sector-33 yea Wc-03	₹0 205.57 लाख
2	Modification and Maintenance Under Operation Kayakalp for J.H.S and P.S Balance work in (Zone-04) Phase-2 YEIDA Wc-06	₹0 354.76 लाख

जिन्हें दिनांक 19.07.2024 से 01.08.2024 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई-निविदाओं को प्री-क्वालीफिकेशन दिनांक 02.08.2024 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी।

महाप्रबन्धक (परियोजना)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अविधेय है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीदफोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के ब्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

Have fun with facts on Sundays

Catch the latest column of

HT TWTW
THE WEEK THAT WAS
A quiz on the week's development.

hindustantimes.com | httweets | www.hindustantimes.com

Jubilant Ingrevia Limited
Regd. Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN: L24299UP2019PLC122657
Website: www.jubilantingrevia.com | Email: investors.ingrevia@jubil.com | Tel: +91-5924-267437

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2024

Consolidated Unaudited Financial Results (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30 June	31 March	30 June	31 March
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
	2024	2024	2023	2024
Total Income from operations	102434	107444	107502	413580
Net Profit before tax and exceptional items	6603	5135	8131	26761
Net Profit before tax (after exceptional items)	6603	5135	8131	26761
Net Profit after tax and exceptional items	4874	2925	5759	18289
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	5036	3256	5744	18640
Equity share capital	1580	1580	1580	1580
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)	277481	272167	266547	272167
Securities Premium Account	57132	57132	57132	57132
Net Worth	279061	273747	268127	273747
Paid-up debt capital	-	-	-	-
Debt Equity Ratio (in times)	0.24	0.24	0.18	0.24
Earnings per share of ₹ 1 each#				
Basic (₹)	3.08	1.85	3.63	11.56
Diluted (₹)	3.08	1.85	3.63	11.55
Debt Service Coverage Ratio (in times)#	8.35	7.39	10.91	8.67
Interest Service Coverage Ratio (in times)	8.35	7.39	10.91	8.67

not annualised for the quarters

Standalone Unaudited Financial Results (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30 June	31 March	30 June	31 March
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
	2024	2024	2023	2024
Total Income from operations	96909	103674	103072	398725
Net Profit before tax and exceptional items	4434	5243	7678	23900
Net Profit before tax (after exceptional items)	4434	5243	7678	23900
Net Profit after tax and exceptional items	3277	3098	5482	16245
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	3251	3209	5459	16141
Equity share capital	1593	1593	1593	1593
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)	226642	223113	219772	223113
Securities Premium Account	57191	57191	57191	57191
Net Worth	228235	224706	221365	224706
Paid-up debt capital	-	-	-	-
Debt Equity Ratio (in times)	0.36	0.36	0.31	0.36
Earnings per share of ₹ 1 each#				
Basic (₹)	2.06	1.94	3.44	10.20
Diluted (₹)	2.06	1.94	3.44	10.20
Debt Service Coverage Ratio (in times)#	5.83	6.22	8.10	6.61
Interest Service Coverage Ratio (in times)	5.83	6.22	8.10	6.61

not annualised for the quarters

Notes:

- The consolidated and standalone unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 16 July 2024. These results have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
- The above is an extract of the detailed format of the consolidated and the standalone unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the consolidated and the standalone unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2024 is available under Investors section of our website at www.jubilantingrevia.com and Financial Results at Corporate section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

Place : Noida
Date : 16 July 2024

For Jubilant Ingrevia Limited
Deepak Jain
CEO & Managing Director

